




Healthy Heads in Trucks & Sheds



यार-दोस्त चीजों को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं।

जब हम किसी बात से परेशान होते हैं, तो दोस्तों से उसके बारे में बात करने के परिणाम हो सकते हैं। चीजों के बारे में किसी दूसरे के विचार परिप्रेक्ष्य और संतुलन लाते हैं। और चीजों को संतुलित रखना, खुद का और अपनी सकुशलता का ध्यान रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अपनी सकुशलता के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस कोड को स्कैन करें।

